

# निजी कंपनी के नकली स्टीकर लगे जूते, ट्रैक सूट, पर्स बेच रहा था दुकानदार



अमर उजाला लोकल ब्यूरो

Updated Wed, 13 Jul 2022 12:40 AM IST

निजी पार्टी कंपनी के नकली स्टीकर लगे जूते, ट्रैक सूट, पर्स बेच रहा था दुकानदार

-कंपनी के अधिकारी ने छापा मारकर पकड़ा -गन्नौर थाना में दुकानदार प्रवीन के खिलाफ दर्ज कराया कॉपी राइट एक्ट में मुकदमा संवाद न्यूज एजेंसी सोनीपत। जर्मनी की कंपनी प्यूमा के नकली स्टीकर लगे जूते, टी-शर्ट, ट्रैक-पेंट और पर्स करे ब्रांडेड बताकर बेचने का मामला सामने आया है। कंपनी के इन्वेस्टीगेटर को जब मामले का पता तो पुलिस को अवगत कराया। जिस पर पुलिस टीम के साथ छापा मारकर एक आरोपी को पकड़ा गया है। पुलिस ने आरोपी जफरपुर निवासी प्रवीन के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है। नई दिल्ली के उत्तम नगर स्थित राजापुरी निवासी कृष्णपाल सिंह ने गन्नौर थाना पुलिस को बताया कि वह प्यूमा कंपनी की तरफ से अधिकारित इन्वेस्टीगेटर हैं। वह बाजार में कंपनी के नाम से तैयार नकली सामान की धरपकड़ करके कानूनी कार्रवाई कराती है। बाजार में सर्च आपरेशन के लिए गठित विजिलेंस टीम का प्रभारी उन्हें बनाया गया है। उनकी टीम को गन्नौर में प्यूमा का नकली सामान ब्रांडेड बताकर सप्लाई किए जाने की सूचना मिली थी।

कृष्णपाल सिंह ने बताया कि उन्हें पता चला कि जफरपुर निवासी प्रवीन नकली जूते, टी-शर्ट, पर्स और ट्रैक-पेंट अपनी दुकान पर बेच रहा है। पुलिस को साथ लेकर मौके पर छापा मारा गया। पुलिस ने मौके से 228 जोड़ी नकली जूते, 47 अंडरवियर, चार पर्स, दो ट्रैक-पेंट, एक टी-शर्ट बरामद हुए। पुलिस ने मामले में कृष्णपाल सिंह के बयान पर कॉपीराइट एक्ट का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Source: <https://www.amarujala.com/haryana/sonipat/sonipat1657653008>